

CLASS :-VII

HINDI II

पाठ-15 फुटबॉल का मैच

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

(क) इंग्लैंड का सर्वप्रिय खेल कौन -सा है?

उ० इंग्लैंड का सर्वप्रिय खेल फुटबॉल है।

(ख) इंग्लैंड पर किसने आक्रमण किया था?

उ० इंग्लैंड पर डेनमार्क ने आक्रमण किया था।

(ग) रेफरी सिक्का क्यों उछलता है?

उ० रेफरी सिक्का उछालकर तय करता है कि किस टीम को मैदान के किस ओर खेलना है।

(घ) रेफरी लंबी सीटी क्यों बजाता है?

उ० मध्यांतर होने पर रेफरी लंबी सीटी बजाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(क) फुटबॉल का खेल कैसे खेला जाता है?

उ० फुटबॉल का खेल, यह एक मोर्चाबंदी ही है आगे के पाँच -पाँच खिलाड़ी की अग्रिम पंक्ति विपक्षी गोल पर धावा बोल देती हैं। मध्य पंक्ति बचाव करती है, और अपनी ओर आने वाले विपक्षी खिलाड़ी को रोकने और उनसे गेंद छीनने का प्रयत्न करती है। मध्य पंक्ति में तीन खिलाड़ी होते हैं। उसके पीछे दो खिलाड़ी बड़े सजग पहरेदार हैं। मध्य पंक्ति से गेंद के निकलते ही आगे बढ़ते हैं और जोरदार ठोकर लगा कर उसे वापस करने का प्रयत्न करते हैं। यदि उनसे भी गेंद निकल जाती है, तो अंतिम खिलाड़ी गोलकीपर गेंद को रोकता है वह गेंद को हाथ से भी पकड़ सकता है कोई और खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकता। अगर कोई छू ले तो 'फाउल' माना जाता है।

(ख) ऑफ साइड किसे कहते हैं?

उ० रेफरी ने 'फाउल' दिया। उस ओर के 'सेंटर हाफ' ने अपने साथी गोविंद देने में देरी कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसके साथी खिलाड़ी इतना आगे बढ़ गए कि इधर 'गोलकीपर' के सिवाय रक्षा करने के लिए और कोई खिलाड़ी न रहा। इसे 'ऑफ साइड' कहते हैं।

(ग) अच्छे खिलाड़ी कैसे खेलते हैं?

उ० फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी को दोनों पैरों से खेलने में खुश होना चाहिए। उनका 'लेफ्ट आउट' का बाया पैर नहीं चलता, वह सीधे पैर से ही गेंद मार सकता है।

(घ) रेफरी ने फाउल क्यों दिया?

उ०जब कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है अर्थात पालन नहीं करता है, तब रेफरी उसे फाउल देता है।

नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-  
यह तो-----देख रहा है।

(क) खेल का सिद्धांत क्या होता है?

उ० खेलो और खिलाओ।

(ख) खिलाड़ी ने क्या गलती की?

उ० खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को गेंद नहीं दी जिससे गोल नहीं हो सका।

(ग) किस भावना से खेलना चाहिए?

उ० खेलते समय अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलने की भावना होनी चाहिए।

(घ) रेफरी क्या कर रहा है?

उ० रेफरी खड़ा देख रहा है।

## पाठ-16

### अजंता

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

(क) मंदिर बनाने के लिए क्या किया गया?

उ० मंदिर बनाने के लिए पहाड़ों को काटा गया।

(ख) बुद्ध का जीवन कहाँ से होकर बहता है?

उ० बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से होकर बहता है।

(ग) जातक नामक संग्रह में कितनी जातक कथाएँ हैं?

उ० जातक नामक संग्रह में 555 जातक कथाएँ हैं।

(घ) बुद्ध ने किस- किस रूप में जन्म लिया है?

उ० बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि रूपों में जन्म लिया है।

(ङ) गुफाओं का निर्माण कब आरंभ हुआ था?

उ० गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब दो सौ साल पहले आरंभ हुआ था।

(च) पाठ के लेखक कौन हैं?

उ० पाठ के लेखक डॉ० भगवतशरण उपाध्याय हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

(क) किस समय से हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली आ रही है?

उ० आज से लगभग सवा दो हजार वर्ष पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली आ रही है।

(ख) अजंता के मंदिर कहाँ स्थित है ?

उ०अजंता के मंदिर मुंबई- हैदराबाद के बीच विंध्याचल की पहाड़ियों के पूर्व-पश्चिम में जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ स्थित है।

(ग) गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं?

उ०गुफाओं की दीवारों पर जीवन के कई रंग बिखरे हुए हैं, जहाँ बंदरो, हाथियों, हिरनो की कहानियाँ हैं, वही राजा और भिखारी, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी के चित्र और भय, दया, क्रूरता के भाव दर्शाती कहानियाँ हैं। भगवान बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी दर्शाया गया है। सरोवर में विहार करता गजराज, महलों में राजा-रानी के जीवन के भाव पूर्ण क्षण, जीवन के जितने नजारे हो सकते, सब यहाँ हैं।

(घ) 'जातक' शब्द का क्या अर्थ है? अजंता के चित्रों और जातक कथाओं में क्या संबंध है?

उ०पिछले जन्म की ये कथाएँ 'जातक' कहलाती हैं। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं।

(ङ) अजंता की गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की क्या विशेषताएँ हैं?

उ०अजंता की गुफाओं में उकेरे गए चित्र ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो वे सजीव और गतिमान हों।

(च) 'अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है।' से क्या तात्पर्य है?

उ०'अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है।' से तात्पर्य है कि प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। इसके चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जो इसे मनमोहक बनाती हैं।

नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-  
"उन्हीं को-----उतर पड़ा।"

(क) 'चितेरे' शब्द का क्या अर्थ है?

उ० 'चितेरे' शब्द का अर्थ है कलाकारों ने।

(ख) चितेरो ने क्या बनाया?

उ०चितेरो ने अजंता की गुफाओं में नगरों, गाँवों, महलों, झोपड़ियों, समुद्रों और पंचकों का संसार बनाया।

(ग) भगवान बुद्ध के जन्म की कथाएँ किस नाम से जानी जाती हैं?

उ० भगवान बुद्ध के जन्म की कथाएँ 'जातक कथाओं' के नाम से जानी जाती हैं।

(घ) 'पहाड़ी जंगल में' का क्या अभिप्राय है?

उ०'पहाड़ी जंगल में' से अभिप्राय है कि उन पहाड़ों पर ऐसे चित्र बने थे जैसे कि एक सजीव जंगल का दृश्य हो।